

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2023 — वैशाख 22, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
दाऊ कल्याण सिंह भवन, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक-15/चार/RO/ARO/2023/1641. — लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग ऑफिसर (RO) एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 434/पूर्व अनु-1/छ.ग.-लो.स./2023, दिनांक 11 मई, 2023 एवं अधिसूचना संख्या 434/पूर्व अनु-1/छ.ग.-लो.स./2023(1), दिनांक 11 मई, 2023 का एतद्द्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 2023—21 वैशाख, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/पूर्व अनु०-1 /छ०ग०-लो०स०/2023.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, अपनी अधिसूचना संख्या 434/पूर्व अनु०-1 /छ०ग०-लो०स०/2019 दिनांक 14 मार्च, 2019 का अधिक्रमण करते हुए, निर्वाचन आयोग नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारी को, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में यथाविनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
1	2
1. सरगुजा (अ.ज.जा)	कलेक्टर, सरगुजा
2. रायगढ़ (अ.ज.जा)	कलेक्टर, रायगढ़
3. जांजगीर-चांपा (अ.जा.)	कलेक्टर, जांजगीर-चांपा
4. कोरबा	कलेक्टर, कोरबा
5. बिलासपुर	कलेक्टर, बिलासपुर
6. राजनांदगांव	कलेक्टर, राजनांदगांव
7. दुर्ग	कलेक्टर, दुर्ग
8. रायपुर	कलेक्टर, रायपुर
9. महासमुंद	कलेक्टर, महासमुंद
10. बस्तर (अ.ज.जा)	कलेक्टर, बस्तर
11. कांकेर (अ.ज.जा)	कलेक्टर, कांकेर

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेंद्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 11th May, 2023— 21 Vaisakha, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/ES-1/CG-HP/2023.— In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/ES-1/CG-HP/2019, dated 14th March, 2019, the Election Commission hereby appoints the officer of the Government as specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer for the Parliamentary Constituency in the State of Chhattisgarh as specified in the column (1) of the said Table against such officer of the Government:-

TABLE

No. and Name of the Parliamentary Constituency 1	Returning Officer 2
1. Surguja (ST)	Collector, Surguja
2. Raigarh (ST)	Collector, Raigarh
3. Janjgir-Champa (SC)	Collector, Janjgir-Champa
4. Korba	Collector, Korba
5. Bilaspur	Collector, Bilaspur
6. Rajnandgaon	Collector, Rajnandgaon
7. Durg	Collector, Durg
8. Raipur	Collector, Raipur
9. Mahasamund	Collector, Mahasamund
10. Bastar (ST)	Collector, Bastar
11. Kanker (ST)	Collector, Kanker

By Order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
Senior Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई, 2023—21 वैशाख, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 434/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-लो.स./2023 (1).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 434/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-लो.स./2019(1) दिनांक 14 मार्च, 2019 एवं समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को, उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है :-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम 1	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 2
1. सर्गुजा (अ.ज.जा)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी (सामरी)
	6. अपर कलेक्टर, सर्गुजा
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतापुर

2. रायगढ़ (अ.ज.जा)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुनकुरी
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथलगांव
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लैलुंगा
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धर्मजयगढ़
3. जांजगीर-चांपा (अ.जा)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मालखरौदा
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसडोल
4. कोरबा	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भरतपुर
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुंठपुर
	4. अपर कलेक्टर, कोरबा
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोड़ी-उपरोड़ा
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डूरोड
5. बिलासपुर	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तखतपुर
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर
	7. अपर कलेक्टर, बिलासपुर
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी

6. राजनांदगांव	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगढ़
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनांदगांव
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव
	7. अपर कलेक्टर, राजनांदगांव
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला
7. दुर्ग	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग
	3. अपर कलेक्टर, दुर्ग
	4. अपर कलेक्टर, दुर्ग
	5. संयुक्त कलेक्टर, दुर्ग
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमधा
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा
	9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नवागढ़
8. रायपुर	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तिल्दा-नेवरा
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर
	5. संयुक्त कलेक्टर, रायपुर
	6. अपर कलेक्टर, रायपुर
	7. संयुक्त कलेक्टर, रायपुर
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरंग
	9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अभनपुर
9. महासमुंद	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सराईपाली
	2. अपर कलेक्टर, महासमुंद
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागबाहरा
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजिम
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवभोग
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी

10. बस्तर (अ.ज.जा)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नारायणपुर
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बस्तर
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तोकापाल
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दंतेवाड़ा
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोन्टा
11. कांकेर (अ.ज.जा)	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नगरी
	2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद
	3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डोंडीलोहारा
	4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुन्डरदेही
	5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पखांजूर
	6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर
	7. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कांकेर
	8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केशकाल

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेंद्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 11th May, 2023— 21 Vaisakha, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 434/ES-1/CG-HP/2023 (1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its notification No. 434/CG-HP/2019 (1) dated 14th March, 2019, as amended from time to time, the Election Commission of India hereby appoints each of the officers of the Government as specified in column 2 of the Table below, as the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Chhattisgarh, as specified in the column 1 of the said table, in the performance of the functions of such Returning Officer:-

TABLE

Number and Name of parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1. Surguja (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Surajpur
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Bhaiyathan
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Pratappur

	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Ramanujganj
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Kusmi (Samri)
	6. Additional Collector, Surguja
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Ambikapur
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Sitapur
2. Raigarh (S.T.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Jashpur
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Kunkuri
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Patthalgaon
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Lailunga
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Raigarh
	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Sarangarh
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Kharsia
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Dharamjaigarh
3. Janjgir-Champa (S.C.)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Janjgir
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Champa
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Sakti
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Dabhara
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Malkharoda
	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Pamgarh
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Bilaigarh
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Kasdol
4. Korba	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Bharatpur
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Manendragarh
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Baikunthpur
	4. Additional Collector, Korba
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Korba
	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Katghora
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Podi-Uproda
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), PendraRoad
5. Bilaspur	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kota
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Lormi
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Mungeli
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Takhatpur
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Bilha

	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Bilaspur
	7. Additional Collector, Bilaspur
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Masturi
6. Rajnandgaon	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Pandariya
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Kawardha
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Khairagarh
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Dongargarh
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Rajnandgaon
	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Dongargaon
	7. Additional Collector, Rajnandgaon
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Mohla
7. Durg	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Patan
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Durg
	3. Additional Collector, Durg
	4. Additional Collector, Durg
	5. Joint Collector, Durg
	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Dhamdha
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Saja
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Bemetara
	9. Sub Divisional Officer (Revenue), Nawagarh
8. Raipur	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Balodabazar
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Bhatapara
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Tilda-Newra
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Raipur
	5. Joint Collector, Raipur
	6. Additional Collector, Raipur
	7. Joint Collector, Raipur
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Arang
	9. Sub Divisional Officer (Revenue), Abhanpur
9. Mahasamund	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Saraipali
	2. Additional Collector, Mahasamund
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Bagbahra
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Mahasamund
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Rajim

	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Devbhog
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Kurud
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Dhamtari
10. Bastar	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Kondagaon
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Narayanpur
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Bastar
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Jagdalpur
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Tokapal
	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Dantewada
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Bijapur
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Konta
11. Kanker (ST)	1. Sub Divisional Officer (Revenue), Nagri
	2. Sub Divisional Officer (Revenue), Balod
	3. Sub Divisional Officer (Revenue), Dondilohara
	4. Sub Divisional Officer (Revenue), Gunderdehi
	5. Sub Divisional Officer (Revenue), Pakhanjur
	6. Sub Divisional Officer (Revenue), Bhanupratappur
	7. Sub Divisional Officer (Revenue), Kanker
	8. Sub Divisional Officer (Revenue), Keshkal

By Order,

Sd/-

(Narendra N. Butolia)
Senior Principal Secretary.